

नकली विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

Publish Date:Wed, 18 Sep 2019 08:21 PM (IST)



हजारीबाग केरेडारी -बड़कागांव के साथ साथ कटकमदाग के लाइन होटल दूकान और घरों

हजारीबाग : केरेडारी -बड़कागांव के साथ साथ कटकमदाग के लाइन होटल, दूकान और घरों में बेची जा रही ओसी ब्लू- आरएस तथा अन्य कंपनियों की विदेशी शराब नकली है। उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर नकली शराब की तस्करी करन वाले ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सप्लायर मुकेश महतो पिता स्व. खुशी महतो गांव रेशाम थाना मुफस्सिल को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग ने इसके पास से

अरूणाचल प्रदेश में बिकने वाली किंग गोल्ड की 200 लीटर, तैयार आरएस की 10 लीटर तथा 12 लीटर रांयल चैलेज जब्त की है। शराब मिट्टी के घर में गड्ढा बनाकर रखा जा रहा था। छापेमारी दल का नेतृत्व एसआई उत्पाद अखिलेश कुमार, जितेंद्र कुमार सिंह तथा राजीव नयन कर रहे थे। गिरफ्तार मुकेश महतो ने पूछताछ में बताया कि बोकारो से वह शराब लाकर बड़कागांव, केरेडारी, कटकमदाग के लाइन होटल, घर व राशन दूकानों में सप्लाई करता है। आधा दर्जन लोग इस धंधे में शामिल है।

आरएस- ओसी ब्लू की खाली बोतलों में डाला जा रहा किंग गोल्ड की शराब

तस्कर लाइन होटल और कबाड़ी के दूकानों से ओसी ब्लू, आरएस की खाली बोतल खरीद कर 100 रुपए में बिकने वाली किंग गोल्ड की शराब भरकर बेच रहे हैं। 100 रुपए की लागत पर आरएस व ओसी ब्लू की बोतलों में बंद कर बेचने के बाद यहीं शराब छह सौ रुपए की हो जाती है। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में उत्पाद विभाग ने नकली आरएस की 10 तथा ओसी ब्लू 12 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग बरामद शराब को पटना एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा।

कोयला लेकर आने वाले ट्रक चालकों को होती है सप्लाई

दो नंबर की शराब कोयला लेकर आने वाले ट्रक चालक, जंगलों में अवैध रूप से चल रही इट भट्ठों के अलावा एनटीपीसी जैसे कंपनियों में काम कर रहे मजदूरों को आन काल उपलब्ध कराया जाता है। जानकारी के मुताबिक उरीमारी और डाड़ी क्षेत्र में भी इस शराब की काफी मांग है।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/hazaribagh-hazaribagh-newa-crime-19590443.html>